



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012025-259834
CG-DL-E-01012025-259834

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1059]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2024/पौष 6, 1946

No. 1059]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2024/PAUSHA 6, 1946

Hkkj rh; mi p; kl i fj "kn-
çR; kgkj vknš k

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2024

Qk- l a 18&18@14979&vkbZ, ul h.—समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, मित्तल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, महोबा रोड खोप छतरपुर, जिला Nrjig&471001 %eè; çnš k% मध्य प्रदेश राज्य सरकार तथा मध्य प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद् द्वारा th, u, e पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता रद्द करने के लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश राज्य सरकार, कमरा संख्या 241, मंत्रालय (वल्लभ भवन) एरेरा हिल्स, भोपाल-462004, मध्य प्रदेश को संबोधित नोटिस संख्या 18&18@14979&vkbZ, ul h %52825% दिनांक 26-02-2024 को जारी किया गया था। दिनांक 26-02-2024 को जारी नोटिस की एक प्रति मित्तल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, महोबा रोड खोप Nrjig] ftyk Nrjig&471001 %eè; çnš k% को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, मित्तल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी मित्तल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् द्वारा इस मामले पर समग्र विचार किया गया है। सत्र 2020-2021 से जीएनएम पाठ्यक्रम में कोई प्रवेश न होने के कारण भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा th, u, e कार्यक्रम को बंद माना गया है।

अतः, धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 21-05-2024 से मित्तल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, महोबा रोड खोप छतरपुर, जिला छतरपुर-471001 %eè; çnš k% से th, u, e मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल eè; çnš k jkT; में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./821/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL
WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 19th November, 2024

F. No. 18-18/14979-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Mittal College Of Nursing** situated at **Mahoba Road Khop Chhatarpur Mp, Chhatarpur, Distt.- Chhatarpur, Pin Code- 471001, Madhya Pradesh** is recognized by State Government of Madhya Pradesh and Madhya Pradesh Nurses Registration Council to conduct **GNM** Course.

Whereas, a notice no. 18-18/14979-INC (52825) dated 26/02/2024 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to the principal secretary (Health & FW), Government of Madhya Pradesh Room No. 241, Mantralaya (Vallabh Bhawan) Area Hills, Bhopal – 462004, Madhya Pradesh was issued. Copy of the notice dated 26/02/2024 was also enclosed to **Mittal College Of Nursing** situated at **Mahoba Road Khop Chhatarpur Mp, Chhatarpur, Distt.- Chhatarpur, Pin Code- 471001, Madhya Pradesh**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Mittal College Of Nursing**. Even the institution, **Mittal College Of Nursing** has not responded to the notices issued. Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Due to non-admission to GNM course since 2020-2021 Indian Nursing Council has considered GNM program as closed.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3) (b) declares that with effect from 21/05/2024 any person holding a recognized qualification of **GNM** from **Mittal College Of Nursing** situated at **Mahoba Road Khop Chhatarpur Mp, Chhatarpur, Distt.- Chhatarpur, Pin Code- 471001, Madhya Pradesh** shall be entitled to be registered only in the State of Madhya Pradesh.

Lt. Col (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./821/2024-25]